



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2007/फाल्गुन 16, 1928

No. 62]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2007/PHALGUNA 16, 1928

लोक सभा सचिवालय

LOK SABHA SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2007

New Delhi, the 6th March, 2007

सं. 21/4/2007/टी.—श्री सुनिल कुमार महतो, जो झारखण्ड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य थे, का 4 मार्च, 2007 को झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बाकुडिया में निधन हो गया और परिणामस्वरूप लोक सभा में उनका स्थान उक्त तारीख से रिक्त हो गया है।

No. 21/4/2007/T.—Shri Sunil Kumar Mahato, an elected member of Lok Sabha from Jamshedpur Parliamentary Constituency of Jharkhand passed away at Baguria in East Singhbhum District of Jharkhand, on 4th March, 2007 and consequently his seat in Lok Sabha has become vacant with effect from that date.

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

P. D. T. ACHARY, Secy.-General